


अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
क्रमांक/गोपनीय/7015/14-6 रीवा, दिनांक 14/9/15
निविदा सूचना

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) के लिये कागज सहित लगभग 10000 (दस हजार) उपाधियों को मुद्रण कार्य कराया जाना है। इस कार्य के लिये गोपनीय विभाग से रुपये 1000/- नगद जमा कर अथवा राशि रुपये 1050/- का ड्राफ्ट जो कुलसचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा के नाम देय होगा, निविदा-फार्म एवं शर्तें दिनांक 18/09/15 तक प्राप्त कर सकते हैं। निविदाएँ सीलबंद लिफाफे पर रजिस्टर्ड टांक से दिनांक 30/09/15 को कार्यालयीन समय तक प्राप्त हो जानी चाहिये। निर्धारित समयावधि के पश्चात् निविदायें मान्य नहीं की जावेगी। निविदा की शर्तें एवं विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in पर उपलब्ध है।

(डॉ. बी. भारती)
कुलसचिव

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. श्री पी.के. राय, सिरस्टग इंजार्ज, कृपया संलग्न निविदा सूचना, निविदा की शर्तें एवं प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.apsurewa.ac.in में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।
2. सम्पादक, हिन्दुस्तान टाइम्स, एच.टी. मीडिया, लिमिटेड आर-22 एम.पी. नगर जोन-01 गोपाल एवं सम्पादक, पत्रिका, राज एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर रीवा की ओर भेजकर अनुरोध है कि उपर्युक्त निविदा सूचना को संलग्न साइज (4.3cm.x3cm.) में ही एक बार प्रकाशित कर देयक दो प्रतियों में समाचार पत्र की प्रति के साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत करें। इससे अधिक साइज में मुद्रित करने पर अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
3. वित्त अधिकारी।
4. सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
5. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
6. सूचना पटल/स्वागत काउण्टर।


संलग्नक कुलसचिव (परीक्षा)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)

निविदा शर्त

विश्वविद्यालय को कागज सहित उपाधियों का मुद्रण कार्य कराया जाना है जिसके लिये शर्त निम्नानुसार हैं:-

1. उपाधियों का मुद्रण कार्य लगभग 10,000 (दस हजार) की संख्या में कराया जावेगा। आवश्यकतानुसार यह संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
2. उपाधि मुद्रण कार्य हेतु पंजीकृत निविदाकर्ताओं से सीलबन्द-निविदाये दिनांक..... को कार्यालयीन समय तक आमंत्रित की जाती हैं। जिसके लिये स्थापना का पंजीयन प्रमाणपत्र, आयकर समाशोधन प्रमाणपत्र, पंजीयन जीवित होने का प्रमाणपत्र, सी.एस.टी./स्टेट सेल्स टैक्स का पंजीयन प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा के साथ पैन नम्बर देना अनिवार्य होगा। साथ ही पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर समाशोधन प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदाकर्ता ने कम से कम तीन वर्ष उपाधि मुद्रण का कार्य किया हो। यह निविदा की अनिवार्य शर्त होगी।
5. निविदाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में कम से कम 10 लाख का टर्न ओवर किया हो, जिसकी आडिटेड कापी प्रस्तुत की जाय।
6. निविदाकर्ता द्वारा एक ही आदेश के तहत रुपये 05 लाख का कार्य किया गया हो, का प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा।
7. निविदाकर्ता को उपाधि मुद्रण सम्बन्धित 20 से 25 ग्राम के कागज की उपाधि बनाकर नमूना सहित प्रस्तुत करना होगा।
8. निविदाकर्ता को अमानत राशि रुपये 40000/- (चालीस हजार का डिमांड ड्राफ्ट (राष्ट्रीयकृत बैंक का) जो कुलसचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा के नाम देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। या इतने ही राशि विश्वविद्यालय कोष में नगद जमा राशि की मूल रसीद संलग्न करनी होगी।
9. निविदाकर्ता को समस्त करों सहित (वैट एवं अन्य टैक्स) दरें प्रस्तुत करनी होगी। अलग से कोई कर देय नहीं होगा।
10. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात रुपये 100/- (एक सौ) के नान जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप अनुबंध करना होगा। जिसे सामग्री प्रदायदाता अनिवार्य रूप से मान्य करेगा।
11. निविदाकर्ता को सामग्री खय के व्यय पर विश्वविद्यालय को पहुंचाकर प्रदाय करनी होगी। विलम्ब की स्थिति में देयक से 10 प्रतिशत की कटौती की जा सकती है।
12. उपाधि मुद्रण कार्य गुणवत्तायुक्त किया जाय। मुद्रण कार्य गुणवत्तायुक्त न होने पर जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी तथा विश्वविद्यालय आवश्यकता पड़ने पर मुद्रण स्थल का निरीक्षण कर सकता है। मुद्रण स्थल सुरक्षित न होने की स्थिति में विश्वविद्यालय कयादेश निरस्त कर सकता है।
13. निविदा के दो लिफाफे 'ए' एवं 'बी' होंगे। 'ए' लिफाफे में अमानत राशि का ड्राफ्ट रसीद, वांछित प्रमाणपत्र एवं नमूने होंगे तथा 'बी' लिफाफे में दर रहेगी। जिस क्वालिटी एवं जिरा माप की दरें चाही गयी हैं मात्र उन्हीं की दर दी जाय, अलग से आगक दरें न दी जाय। अन्यथा आपकी दर पर विचार नहीं किया जावेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर ही दर प्रस्तुत की जाय। लिफाफे के उपरी भाग पर 'ए' लिफाफा (ड्राफ्ट रसीद, प्रमाणपत्र एवं नमूना) तथा 'बी' लिफाफा (दर सम्बन्धी) स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय एवं बाह्य लिफाफे पर उपाधि मुद्रण कार्य हेतु निविदा अंकित की जाय।

(डॉ. वी. भारती)
कुलसचिव

उपाधि

1. उपाधि मुद्रण के लिये 27.5 X 37.5 साइज की 20 से 25 ग्राम की हैण्डमेड सुपरफाइन कागज की उपाधि बनाकर नमूने के रूप में संलग्न करना होगा। इसी साइज, गुणवत्ता एवं वनज पर उपाधि निर्मित होगी।
2. कागज का निर्माण बटरमार्क सहित होगा।
3. उपाधि मुद्रण कार्य चार कलर में होगा, जिसमें विश्वविद्यालय का मौनो गोल्डन होलो ग्राफिकस, हार्डक्वाइल स्टैपिंग तथा विश्वविद्यालय का बैनर हार्डक्वाइल स्टैपिंग से करना होगा।
4. उपाधि के अन्दर हिन्डेड बेस प्रिन्टिंग करनी होगी तथा बैक साइज में सिंगल कलर प्रिन्टिंग करनी होगी।
5. प्रत्येक उपाधि में टी/एम पद्धति से नम्बरिंग होगी।
6. उपाधि मुद्रण में गुद्रक की ओर से क्या-क्या गोपनीयता रखी जायेगी, उसका भी उल्लेख करें।
7. प्रत्येक उपाधि में "बार कोड" का मार्को लगाना होगा, साथ ही "बार कोड" के साथ गोपनीय संकेत नम्बर देना होगा।
8. उपाधि आदेश दिनांक से 21 दिवस के अन्दर अनिवार्यतः मुद्रित कर विश्वविद्यालय को प्रदाय करनी होगी। विलम्ब की स्थिति में 10 प्रतिशत की कटौती की जावेगी। विशेष निविदा के दो लिफाफे होंगे, जिसमें 'ए' लिफाफा (नमूना, ड्राफ्ट, अभिलेख सम्बन्धी) एवं 'बी' लिफाफा (कार्य की दर सम्बन्धी) तथा बाह्य लिफाफे पर उपाधि मुद्रण कार्य हेतु निविदा रपट रूप से लिखा होना चाहिये

(डॉ. वी. भारती)
कुलसचिव